



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05042025-262307
CG-DL-E-05042025-262307

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111]
No. 111]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 3, 2025/ चैत्र 13, 1947
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 3, 2025/ CHAITRA 13, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2025

मामला सं. एडी (एनसी) – 02/2024

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) ब्लैंड के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 06/34/2020-डीजीटीआर में उत्पादक/ निर्यातक शानडोंग डोंग्यू केमिकल कंपनी लिमिटेड का नाम बदलकर शानडोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेट्स कंपनी लिमिटेड करना।

फा. सं. 7/15/2024- डीजीटीआर.—

क. पृष्ठभूमि

- व्यापार उपचार महानिदेशालय ("प्राधिकारी") ने चीन जन. गण. ("संबद्ध देश") के मूल के अथवा वहां से निर्यातित हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) ब्लैंड के आयातों के संबंध में एक पाटनरोधी जांच की थी और अपनी अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 06/34/2020- डीजीटीआर ("अंतिम जांच परिणाम") के माध्यम से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। सिफारिश को वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर

लिया गया था और सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 76/2021- सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से निश्चयात्मक शुल्क लगाया गया था।

2. उक्त पाटनरोधी जांच में, चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के सहयोगी उत्पादकों में से एक सहयोगी उत्पादक, नामतः शानडोंग डोंग्यू केमिकल कंपनी लिमिटेड ने भाग लिया था और उसे एक व्यक्तिगत पाटनरोधी शुल्क दर प्रदान की गई थी।
3. अंतिम जांच परिणाम जारी होने के बाद, शानडोंग डोंग्यू केमिकल कंपनी लिमिटेड ने कॉर्पोरेट पुनर्गठन किया है, जिसके परिणामस्वरूप उसके उत्पादन व्यवसाय खंड का स्पिन-ऑफ हुआ है और शानडोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेटर्स कंपनी लिमिटेड नामक एक नई संस्था का गठन किया गया है। आवेदक ने यह दावा किया है कि स्वामित्व, प्रबंधन, उत्पादन प्रक्रिया, लागत संरचना अथवा उत्पाद के दायरे में कोई बदलाव नहीं हुआ है और इसलिए, शानडोंग डोंग्यू केमिकल कंपनी लिमिटेड पर लागू पाटनरोधी शुल्क अब नई स्थापित संस्था पर लागू किया जाना चाहिए।

ख. प्रक्रिया

4. दिनांक 30 सितंबर 2024 को, शानडोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेटर्स कंपनी लिमिटेड ("आवेदक") ने दिनांक 17 सितंबर 2018 की व्यापार सूचना संख्या 12/2018 के अनुसार, अंतिम जांच परिणाम की शुल्क तालिका में नाम बदलने के लिए अनुरोध करते हुए एक आवेदन दाखिल किया।
5. अनुरोध की प्रकृति पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने आवेदन की जांच की और अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग की। आवेदन के अगोपनीय पाठ को हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था। घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदक के दावों के खिलाफ कोई भी अनुरोध अथवा साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया था। तथापि, दिनांक 28 फरवरी, 2025 के ईमेल के माध्यम से, घरेलू उद्योग ने यह सूचित किया कि उन्हें चीन की कंपनी द्वारा मांग किए गए नाम परिवर्तन के अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं है।
6. हितबद्ध पक्षकारों से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई और घरेलू उद्योग को नाम परिवर्तन के अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं थी। प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रथम दृष्टया जांच के आधार पर, प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया कि यह केवल नाम परिवर्तन का मामला है, इसमें कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण संशोधन नहीं है जिसके लिए मध्यावधि समीक्षा (एमटीआर) की आवश्यकता हो।
7. प्राधिकारी द्वारा दिनांक 5 मार्च 2025 को मौखिक सुनवाई की गई। आवेदक निर्यातक ने सुनवाई में भाग लिया और अपने आवेदन के आधार पर नाम परिवर्तन का अनुरोध किया।

ग. आवेदक का अनुरोध

8. शानडोंग डोंग्यू केमिकल कंपनी लिमिटेड ने स्पिन-ऑफ के रूप में कॉर्पोरेट पुनर्गठन किया है, जिसके परिणामस्वरूप एक नई संस्था, शानडोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेटर्स कंपनी लिमिटेड की स्थापना हुई। परिणामस्वरूप, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) कंपोनेंट आर-32 और एचएफसी ब्लेंड से संबंधित विनिर्माण और संचालन सहित उत्पादन व्यवसाय सेगमेंट को पूरी तरह से नई निगमित कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया है। मूल कंपनी, शानडोंग डोंग्यू केमिकल कंपनी लिमिटेड ने अपनी उत्पादन गतिविधियों को बंद कर दिया है और अब यह केवल रणनीतिक प्रबंधन और सहायक स्टॉकहोलिंग पर ध्यान केंद्रित करेगी।
9. स्पिन-ऑफ को चीन के कॉर्पोरेट कानूनों के अनुसार कानूनी रूप से अनुमोदित किया गया था और सभी आवश्यक नियामक और अनुपालन संबंधी अनुमोदन प्राप्त किए गए थे। पुनर्गठन करने का उद्देश्य उत्पादन अथवा आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी व्यवधान के बिना संचालन को सुव्यवस्थित करना और दक्षता में सुधार करना है। नई संस्था ने व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करते हुए सभी मूर्त और अमूर्त परिसंपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है।

10. इस परिवर्तन को दर्शाने के लिए पूर्व और नई स्थापित दोनों कंपनियों के व्यवसाय लाइसेंस अपडेट किए गए हैं। स्पिन-ऑफ से पहले, शानडोंग डोंग्यू केमिकल कंपनी लिमिटेड एचएफसी आर-32 और एचएफसी ब्लेंड्स तथा अन्य खतरनाक रसायनों के उत्पादन के लिए जिम्मेदार थी। तथापि, पुनर्गठन के बाद, इसके व्यवसाय का दायरा बदल गया है और अब इसके पास रासायनिक उत्पादन के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। संबंधित सुरक्षा उत्पादन लाइसेंस भी शानडोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेटर्स कंपनी लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिए गए हैं, जिससे इसे उसी नियामक व्यवस्था के तहत संचालन जारी रखने की अनुमति मिल गई है।
11. स्पिन-ऑफ के बाद शेयरधारिता पैटर्न अथवा प्रबंधन संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वही मालिक, निदेशक और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक, जो पुनर्गठन से पहले शानडोंग डोंग्यू केमिकल कंपनी लिमिटेड के संचालन की देखरेख करते थे, वे शानडोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेटर्स कंपनी लिमिटेड का प्रबंधन करना जारी रखते हैं। इसके अलावा, कंपनी के कर्मचारियों को बिना किसी छंटनी या भूमिकाओं में बदलाव किए स्थानांतरित कर दिया गया है, जिससे व्यावसायिक संचालन में स्थिरता सुनिश्चित हुई है।
12. विनिर्माण सुविधाएं, उत्पादन तकनीक और निर्यात चैनल अपरिवर्तित बने हुए हैं। लागत संरचना, कच्ची सामग्री के स्रोत और बिक्री रणनीति भी पुनर्गठन से पहले की तरह ही बनी हुई है। निर्यातक ने इस बात पर बल दिया है कि यह पूरी तरह से आंतरिक पुनर्गठन के कारण नाम परिवर्तन है और इससे संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन अथवा निर्यात करने की उसकी क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
13. स्पिन-ऑफ के भाग के रूप में, एसेट ट्रांसफर एग्रीमेंट को निष्पादित किया गया, जिसमें शानडोंग डोंग्यू केमिकल कंपनी लिमिटेड से शानडोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेटर्स कंपनी लिमिटेड को कानूनी रूप से सभी उत्पादन संबंधी परिसंपत्तियों, दायित्वों और अधिकारों को हस्तांतरित किया गया। निर्यातक ने नाम परिवर्तन की वैधता को प्रमाणित करने के लिए बोर्ड के प्रस्तावों, वित्तीय रिकॉर्ड, व्यवसाय लाइसेंस और संगठन चार्ट सहित सहायक दस्तावेज भी प्रदान किए हैं।
14. यह देखते हुए कि उत्पादन और निर्यात के लिए जिम्मेदार संस्था वही बनी हुई है, निर्यातक ने अनुरोध किया है कि शानडोंग डोंग्यू केमिकल कंपनी लिमिटेड पर लागू पाटनरोधी शुल्क अब शानडोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेटर्स कंपनी लिमिटेड पर लागू किया जाना चाहिए। चूंकि व्यापार संचालन, उत्पादन क्षमता अथवा निर्यात संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ है, अतः निर्यातक का यह दावा है कि यह संशोधन व्यापार सूचना संख्या 12/2018 के अनुरूप है, जिसके तहत मध्यावधि समीक्षा की आवश्यकता के बिना नाम परिवर्तन की अनुमति है।
15. अनुरोध में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि कंपनी की व्यापार गतिविधियां बिना किसी व्यवधान के जारी रहें और पाटनरोधी शुल्कों के संबंध में सभी नियामक अपेक्षाओं को तदनुसार अपडेट किया जाए। निर्यातक ने यह पुष्टि की है कि यह एक प्रक्रिया संबंधी परिवर्तन है जिसका बाजार की गतिशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और पाटनरोधी शुल्क नई संस्था पर निर्बाध रूप से लागू होना चाहिए।

घ. प्राधिकारी द्वारा जांच

16. आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध की नीचे दिए गए अनुसार जांच की गई है।
17. शुल्क तालिका में उत्पादक के नाम में परिवर्तन की जरूरत तब उत्पन्न हुई जब शानडोंग डोंग्यू केमिकल कंपनी लिमिटेड का विभाजन हुआ और उसकी उत्पादन संस्था, जिसमें परिसंपत्तियां, कर्मचारी और प्रमाणपत्र शामिल हैं, को पूरी तरह से शानडोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेटर्स कंपनी लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया था।
18. व्यवसाय लाइसेंस, बोर्ड संकल्प, परिसंपत्ति हस्तांतरण करार और संगठन चार्ट सहित सहायक दस्तावेजों की जांच से पता यह चलता है कि यह नाम परिवर्तन का मामला है, जिसमें पाटनरोधी निर्धारण को प्रभावित करने वाले कोई संरचना संबंधी परिवर्तन नहीं हैं।

19. नाम परिवर्तन का अनुरोध कॉर्पोरेट पुनर्गठन से उत्पन्न होता है, जिसमें शानडोंग डोंग्यू केमिकल कंपनी लिमिटेड ने अपनी उत्पादन गतिविधियों, जिसमें परिसंपत्तियां, कार्यबल और प्रमाणन शामिल हैं, को शानडोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेटर्स कंपनी लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया है।
20. पुनर्गठन से व्यवसाय की मौलिक प्रकृति में बदलाव नहीं आता है। नई संस्था के अंतर्गत वही उत्पादन सुविधा, स्थापित क्षमता और निर्यात चैनल मौजूद रहेंगे।
21. नई स्थापित संस्था की शेयरधारिता संरचना अपरिवर्तित बनी हुई है। वही हितधारक जो पहले शानडोंग डोंग्यू केमिकल कंपनी लिमिटेड के मालिक थे, वे शानडोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेटर्स कंपनी लिमिटेड के मालिक बने रहेंगे।
22. चूंकि कच्ची सामग्री के स्रोत, उत्पादन तकनीक, लागत संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ है, अतः पुनर्गठन से पूर्व की निर्धारित पाटनरोधी गणनाओं पर प्रभाव नहीं पड़ता है।
23. निर्यातक ने यह घोषणा की है कि स्पिन-ऑफ को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के कंपनी कानून के अनुपालन में किया गया है और सुरक्षा उत्पादन लाइसेंस सहित सभी संगत अनुमोदन, नई संस्था द्वारा प्राप्त किए गए हैं। प्राधिकारी ने निर्यातक की घोषणा और प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर ले लिया है और किसी अन्य हितवद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत विपरीत साक्ष्य को देखते हुए इसे स्वीकार किया गया है।
24. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि शानडोंग डोंग्यू केमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण. ने नाम परिवर्तन के लिए आवेदन का प्रतिबद्धता पत्र प्रस्तुत किया है। पत्र में कहा गया है कि निर्यातक वर्तमान में "हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) कंपोनेंट आर-32 और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) ब्लैंड" के उत्पादन अथवा बिक्री में शामिल नहीं है और यदि उसका नाम संबद्ध वस्तुओं पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क से संबंधित शुल्क तालिका से हटा दिया जाता है अथवा निकाल दिया जाता है और उसके स्थान पर 'शानडोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेटर्स कंपनी लिमिटेड' रख दिया जाता है, तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।
25. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के इस कथन को भी नोट किया कि उसे चीन की कंपनी द्वारा मांग किए गए नाम परिवर्तन के अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं है।
26. जांच से यह भी पता चला है कि यह अनुरोध व्यापार सूचना संख्या 12/2018 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आता है, जिसके तहत एक पूर्णतः मध्यावधि समीक्षा (एमटीआर) की आवश्यकता के बिना, कॉर्पोरेट पुनर्गठन से उत्पन्न नाम परिवर्तन आवेदनों की अनुमति है।

ड. संशोधन के लिए सिफारिश

27. सभी पहलुओं पर विचार किए जाने के बाद, प्राधिकारी दिनांक 27 सितम्बर 2021 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 06/34/2020- डीजीटीआर में शुल्क तालिका में निम्नलिखित संशोधन करने की सिफारिश करते हैं।

" कॉलम [6] में क्रम संख्या [3] पर, उत्पादक/ निर्यातक 'शानडोंग डोंग्यू केमिकल कंपनी लिमिटेड' के नाम में संशोधन किए जाने के बाद 'शानडोंग डोंग्यू रेफ्रिजरेटर्स कंपनी लिमिटेड' पढ़ा जाए।"

28. तदनुसार, दिनांक 22 दिसम्बर 2021 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 76/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) में भी इस परिवर्तन को दर्शाने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए।
29. इन अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के खिलाफ की गई कोई भी अपील अधिनियम/ नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष होगी।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Trade Remedies)

AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi the 3rd April 2025

Case No.AD (NC)-02/2024

Subject: Change in the name of producer/exporter Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd. to Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd. in the Final Finding Notification No. 06/34/2020-DGTR of the Anti-dumping investigation concerning imports of Hydrofluorocarbon (HFC) Blends originating in or exported from China PR.

F. No. 7/15/2024-DGTR.—

A. BACKGROUND

1. The Directorate General of Trade Remedies ("Authority") had conducted an Anti-dumping investigation concerning imports of Hydrofluorocarbon (HFC) Blends originating in or exported from China PR ("subject country") and recommended imposition of definitive anti-dumping duty vide its final findings notification no. [06/34/2020-DGTR] ("Final Findings"). The recommendation was accepted by the Ministry of Finance, and definitive duty was imposed vide Customs Notification No. 76/2021-Customs (ADD).
2. In the said anti-dumping investigation, one of the cooperating producers of the subject goods from China PR, namely Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd., participated and was assigned an individual anti-dumping duty rate.
3. Post the issuance of the final findings, Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd. has undergone a corporate restructuring, resulting in a spin-off of its production business segment, forming a new entity named Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd. The applicant has claimed that there has been no change in ownership, management, production process, cost structure, or product scope, and therefore, the anti-dumping duty applicable to Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd. should now be made applicable to the newly established entity.

B. PROCEDURE

4. On 30th September 2024, Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd. ("the Applicant") filed an application requesting for change of name in the duty table of the final findings, in accordance with Trade Notice No. 12/2018 dated 17th September 2018.
5. Considering the nature of the request, the Authority examined the application and sought additional documents. The non-confidential version of the application was circulated to the interested parties including the domestic industry for their comments. No submission or evidence was filed against the claims of the applicant by the domestic industry within the stipulated timelines. However, vide email dated 28th February, 2025, the domestic industry informed that they do not have any reservation to the request for changes of name demanded by the Chinese company.
6. No comments were received from interested parties and the domestic industry did not have any reservation on the request of name change. Based on the *prima facie* examination of the submitted documents, the Authority determined that this is a case of name change only, with no substantive modifications requiring a Mid-Term Review (MTR).
7. An oral hearing was conducted by the Authority on 5th March 2025. The applicant exporter attended the hearing and requested a name change based on its application

C. SUBMISSION OF THE APPLICANT

8. **Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd.** has undergone a corporate restructuring in the form of a **spin-off**, leading to the creation of a new entity, **Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd.** As a result, the production business segment, including the manufacturing and operations related to **Hydrofluorocarbon (HFC) Component R-32 and HFC Blends**, has been fully transferred to the newly incorporated company. The original company, **Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd.**, has ceased its production activities and will now focus solely on **strategic management and subsidiary stockholding**.
9. The spin-off was **legally approved** in accordance with **China's corporate laws**, and all necessary **regulatory and compliance approvals** were obtained. The restructuring has been carried out with the intent

- to **streamline operations and improve efficiency**, without any disruption to the production or supply chain. The new entity has taken over all the **tangible and intangible assets**, ensuring business continuity.
10. The **business licenses** of both the former and newly formed companies have been updated to reflect this change. Before the spin-off, **Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd.** was responsible for the production of **HFC R-32 and HFC Blends and other hazardous chemicals**. However, after the restructuring, its **scope of business has changed**, and it no longer holds the necessary qualifications for chemical production. The relevant **safety production licenses** have also been transferred to **Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd.**, allowing it to continue operations under the same regulatory framework.
 11. There is **no change in the shareholding pattern or management structure** following the spin-off. The same **owners, directors, and key management personnel** who oversaw the operations of **Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd.** before the restructuring continue to manage **Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd.** Additionally, the company's **workforce has been transferred without any layoffs or changes in roles**, ensuring stability in business operations.
 12. The **manufacturing facilities, production technology, and export channels** remain unchanged. The **cost structure, sources of raw materials, and sales strategy** also continue to be the same as before the restructuring. The exporter has emphasized that this is purely a **name change** due to internal restructuring and does not impact its ability to produce or export the subject goods.
 13. As part of the spin-off, the **Asset Transfer Agreement** was executed, legally transferring all **production-related assets, obligations, and rights** from **Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd.** to **Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd.** The exporter has also provided supporting documents, including **board resolutions, financial records, business licenses, and organizational charts**, to substantiate the legitimacy of the name change.
 14. Given that the **entity responsible for production and exports remains the same**, the exporter has requested that the **anti-dumping duty applicable to Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd.** should now be applied to **Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd.** Since there has been **no change in business operations, production capacity, or export structure**, the exporter asserts that this amendment is in line with **Trade Notice No. 12/2018**, which allows name changes without requiring a **Mid-Term Review**.
 15. The request seeks to ensure that the company's **trade activities continue without disruption**, and that all regulatory requirements regarding **anti-dumping duties** are updated accordingly. The exporter has affirmed that this is a **procedural change with no impact on market dynamics**, and that the **anti-dumping duty should continue to apply seamlessly to the new entity**.

D. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

16. The submissions made by the Applicant have been examined hereunder.
17. The need for change in the name of the producer in the duty table has arisen since Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd. has undergone a spin-off, and its production unit, including assets, employees, and certifications, has been transferred entirely to Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd.
18. The examination of supporting documents, including business licenses, board resolutions, asset transfer agreements, and organizational charts, reveals that this is a case of a name change, with no structural changes affecting the anti-dumping determination.
19. The request for name change arises from a corporate restructuring wherein Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd. has transferred its production operations, including assets, workforce, and certifications, to Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd.
20. The restructuring does not alter the fundamental nature of the business. The same production facility, installed capacity, and export channels continue to exist under the new entity.
21. The shareholding structure of the newly formed entity remains unchanged. The same stakeholders who previously owned Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd. continue to own Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd.
22. Since there is no change in the source of raw materials, production technology, cost structure, the restructuring does not impact the anti-dumping calculations previously determined.
23. The exporter has declared that the spin-off has been carried out in compliance with the Companies Law of the People's Republic of China, and all relevant approvals, including safety production licenses, have been obtained by the new entity. The Authority has taken the declaration of the exporter and documents submitted

on record and in view of no evidence to the contrary submitted by any other interested party accepts the same.

24. The Authority further notes that Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd., China PR, has submitted a Letter of Commitment of application for Name Change. The letter states that the exporter at present is not involved in production or sale of “Hydrofluorocarbon (HFC) Component R-32 and Hydrofluorocarbon (HFC) Blends” & has no objection if its name is removed/struck off from the duty table relating to Anti-Dumping Duty imposed on the subject goods and replaced by the ‘Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd’.
25. The authority also notes the submission of the domestic industry that it has no reservation to the request for change of name demanded by the Chinese company.
26. The examination further reveals that the request falls within the guidelines given in Trade Notice No. 12/2018, which allows name change applications arising from corporate restructuring without requiring a full-fledged Mid-Term Review (MTR).

E. RECOMMENDATION FOR AMENDMENT

27. Having considered all aspects, the Authority recommends the following amendment in the duty table in the Final Findings notification no. 06/34/2020-DGTR dated 27th September 2021.
"At Serial No. [3], in Column [6], the name of the producer/exporter 'Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd.' be amended to read as 'Shandong Dongyue Refrigerants Co., Ltd.'"
28. Accordingly, the Customs Notification No. 76/2021-Customs (ADD) dated 22nd December 2021 should also be amended to reflect this change.
29. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Custom, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act/Rules.

DARPAN JAIN, Designated Authority